



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 1 ]  
No. 1 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 1979/पौष 12, 1900  
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 1979/PAUSA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक पूति और सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(तम्बाकू बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1979

सं० 8/25/78 ई पो(हवि-VI):-तम्बाकू बोर्ड का समाधान हो गया है कि उत्पादकों विनिर्माताओं और व्योहारियों तथा राष्ट्र के हित में वर्जीनिया तम्बाकू के विपणन का विनियमन समीचीन और आवश्यक है;

तम्बाकू बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम, जो उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं, बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (i) इन विनियमों का नाम तम्बाकू बोर्ड विनियम, 1978 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

(iii) ये विनियम आंध्र प्रदेश राज्य को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं: इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रपेक्षित न हो,:-

(क) 'बोर्ड' से, धारा 4 के अधीन स्थापित तम्बाकू बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) 'व्योहारी' से तम्बाकू का व्योहारी अभिप्रेत है ;

(ग) "रजिस्ट्रीकृत" से "रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला" अर्थात् कि के सिवाय, इस अधिनियम के अध्याय 3 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है ;

(घ) "रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है ;

(ङ) "अधिनियम" से, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) अभिप्रेत है ;

(च) "नियम" से, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 32 के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है ;

(छ) "प्रारूप" से, इन विनियमों से सम्बद्ध कोई प्रारूप अभिप्रेत है ;

(ज) "रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता, पैकर, व्योहारी और नीलामकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अधिनियम की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का सुसंगत प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है।

3. बाउन्डर पद्धति : फूलू संसाधित वर्जीनिया तम्बाकू का विक्रय रजिस्ट्रीकृत उगाने वाले और फूलू रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता, व्योहारी, पैकर और नीलामकर्ता इसमें इसके पश्चात् यथा उपबन्धित रूप में तम्बाकू पत्ती क्रय बाउन्डर और तम्बाकू उगाने वाले भी पासबुक पद्धति के अनुसार (जिसे इसमें आगे बाउन्डर पद्धति कहा गया है) करेगा।

4. रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता, व्याहारी, पैकर और नीलामकर्ता (जिन्हें इसमें आये क्रेता कहा गया है) द्वारा, रजिस्ट्रीकृत उगाने वाले (जिसे इसमें आये विक्रेता कहा गया है) से किए जाने वाले सभी क्रय, तम्बाकू पत्ती क्रय बाउचर के माध्यम से किए जाएंगे। यह बाउचर इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप 1 में होगा। प्ररूप 1 में अनुध्यात सभी निबन्धनों, शर्तों और बातों का अनुपालन, फलू संसाधित तम्बाकू के क्रेता और विक्रेता, दोनों करेंगे। क्रेता या विक्रेता तम्बाकू बोर्ड द्वारा मुद्रित और प्रदाय किए गए बाउचर से बिना किसी बाउचर का प्रयोग नहीं करेंगे।

5. (क) प्रत्येक क्रेता, विक्रय प्रतिकूल के कम से कम 50 प्रतिशत का भुगतान क्रय की तारीख से 10 दिन के भीतर कर देगा और शेष रकम का भुगतान क्रय की तारीख से 120 दिन के भीतर, क्रय की तारीख से आस्थगित भुगतान पर 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित, अधिक से अधिक दो किस्तों में कर देगा।

(ख) भुगतान बैंक से या तकद किया जा सकता है।

6. (क) प्ररूप 1 में बाउचर चार प्रतियों में होगा। प्रथम प्रति में मद 1 से 30 तक होंगी और शेष तीन प्रतियों में मद 1 से 42 तक होंगी। प्ररूप 1 में बाउचर की प्रथम प्रति, जो हरे रंग में मुद्रित होगी और जिसमें मद 1 से 30 तक होंगी, क्रेता द्वारा विक्रेता को, क्रय के दिन निश्चित रूप से प्रस्तुत किये जाने के लिये आशयित है। प्रथम प्रति में मद 1 से 30 तक के सामने भरा जाने वाली प्रविष्टियां कार्बन की सहायता से इस प्रकार की जाएंगी जो कि वे शेष तीन प्रतियों में भी आ जायें। द्वितीय प्रति, जो काले रंग से मुद्रित होगी, क्रेता के प्रयोग के लिये आशयित है। तृतीय प्रति जो, गुलाबी रंग में मुद्रित होगी, विक्रेता को दी जानी चाहिये और उसके साथ ही, प्ररूप 1 की मद 31 से 39 तक के अनुसार क्रय मूल्य के भुगतान के लिये तकद रकम या बैंक भी दी जानी चाहिये। विक्रेता बाउचर की उक्त तृतीय प्रति और बैंक एक साथ बैंकर को देगा। चौथी प्रति, जो नीले रंग में मुद्रित होगी, बैंक द्वारा भुगतान किये जाने की दशा में, क्रेता के बैंक की मार्फत और तकद भुगतान किये जाने की दशा में, सीधे तम्बाकू बोर्ड को तत्काल भेज दी जानी चाहिये। बाउचर की प्रथम प्रति, जिसमें मद 1 से 30 तक होंगी, क्रय के समय ही, विक्रेता को दी जानी चाहिये जो क्रेता को विक्रेता द्वारा विक्रय की गई तम्बाकू के भार, ग्रेड और दर के प्रतीक स्वरूप होंगी। यदि क्रय से 10 दिन के भीतर बैंक या तकद भुगतान तैयार है तो विक्रेता द्वारा क्रेता को प्रथम प्रति दी जानी चाहिये और क्रेता से बाउचर की तृतीय प्रति के साथ ही भुगतान प्राप्त कर लेना चाहिये। यह तृतीय प्रति उस समय तक

क्रेता को भर लेनी चाहिये। विक्रेता और क्रेता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि बाउचर की चारों प्रतियों में मद 1 से 30 तक के सामने की गई प्रविष्टियां एक समान हों।

(ख) बैंक पूरे भुगतान के रूप में बाउचर के साथ दे दी जायेगी। बैंक पर विशिष्टता कोई आगासी तारीख डाल कर और क्रेता के बैंक पर लिखकर विक्रेता के बैंक के पक्ष में (अर्थात्, उस बैंक के पक्ष में जिससे विक्रेता ने उधार लिया है), विक्रेता के खाते जमा रूप में, की जायेगी।

7. प्ररूप 1 में बाउचर तथा तम्बाकू बोर्ड द्वारा मुद्रित और प्रदाय की गई पुस्तिका में अनुध्यात बाउचर पद्धति के निबन्धन, शर्तों और बातों क्रेता द्वारा विक्रेता से किये जाने वाले क्रयों को लागू होंगी। यह पुस्तिका प्ररूप 2 के रूप में इन विनियमों से उपाबद्ध है।

8. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला, प्ररूप 3 में एक तम्बाकू उगाने वाले की पासबुक रखेगा। विक्रय आगम प्राप्त करने के लिये वह अपने बैंकर को बैंक और पास बुक सहित, बाउचर प्रस्तुत करेगा।

9. (क) प्रत्येक क्रेता, प्ररूप 4 में तम्बाकू बोर्ड से आवेदन करके प्ररूप 1 में बाउचर अभिप्राप्त करेगा।

(ख) तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रदाय किये गये बाउचरों का लेखा उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप 5 में रखना होगा। यह लेखा मांग की जाने पर तम्बाकू बोर्ड के सभी अधिकारियों के, जो तकनीकी पर्यवेक्षक की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे, निरीक्षण के लिये उपलब्ध किया जायेगा।

10. निर्यातकर्ता, पैकर, व्याहारी या नीलामकर्ता के रूप में नियम 35 के अधीन किये गये किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण को, तम्बाकू बोर्ड नियम के नियम 36 के अधीन तम्बाकू बोर्ड द्वारा गठित की गई समिति द्वारा, रद्द किया जा सकेगा किन्तु यह तब जब संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मुक्तियुक्त अवसर दिया जा चुका हो और समिति का यह समाधान हो गया हो कि, (1) उसका रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण अशुद्ध जानकारी देकर अभिप्राप्त किया गया था, या (2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने तम्बाकू बोर्ड अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या इन विनियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है।

हस्ताक्षर

एस० चक्रवर्ती, अध्यक्ष

प्ररूप-I

तम्बाकू बोर्ड द्वारा मुद्रित एवं प्रदत्त

तम्बाकू पत्ती क्रय बाउचर

(उगाने वालों से एक० सी० बी० तम्बाकू के क्रेता द्वारा भरे जाने एवं जारी किए जाने के लिए)

आन्ध्र प्रदेश की एक० सी० बी० उपज को लागू (1978 उपज-जिसका 1979 में विपणन किया जाना है)

1. क्रेता का नाम और पता
2. मुख्य कार्यालय का नाम और पता
3. तम्बाकू बोर्ड रजिस्ट्रीकरण सं०
4. तारीख—से—तक विधि मान्य
5. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लाइसेन्स सं०
6. तारीख—से—तक विधिमन्य



| विक्रेता को देय रकम | सकल बेखें 25 | सरकार को देय उपकर आदि घटाएं | विक्रेता से शोध्य रकम घटाएं | शुद्ध 32— (33+34) | संवेद्य ब्याज जोड़िए | कुल शुद्ध रकम (35+36) | किस तारीख को संवेद्य है | बेखें बैंक में |
|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 31                  | 32           | 33                          | 34                          | 35                | 36                   | 37                    | 38                      | 39             |
| पहली किस्त          |              |                             | कुछ नहीं                    |                   | कुछ नहीं             |                       |                         |                |
| दूसरी किस्त         |              | कुछ नहीं                    | कुछ नहीं                    |                   | कुछ नहीं             |                       |                         |                |
| अन्तिम भुगतान       |              | कुछ नहीं                    |                             |                   |                      |                       |                         |                |
| कुल जोड़            |              |                             |                             |                   |                      |                       |                         |                |

40. मैंने इस पत्र के पीछे और संलग्न विवरण पुस्तिका में तम्बाकू के क्रय/विक्रय और उसके संदायों/उसकी प्राप्तियों के संबंध में उल्लिखित स्पष्टीकारक / टिप्पणों, निबन्धनों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं उनसे सहमत हूँ। मैंने ऊपर 39 में वर्णित “\_\_\_\_\_ बैंक” के नाम पर “\_\_\_\_\_ बैंक में विक्रेता के खाते” में जमा करने के लिए बैंक जारी कर दिया है/ दिए हैं और 37 में दिए गए अनुसार रकम का पूर्ण निपटारा हो गया है।

ज्रेता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए  
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

41. मैंने इस पत्र के पीछे और संलग्न विवरण पुस्तिका में तम्बाकू के क्रय/विक्रय और उसके संदायों/उसकी प्राप्तियों के संबंध में उल्लिखित स्पष्टीकारक टिप्पणों, निबन्धनों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं उनसे सहमत हूँ। मैं उक्त कटौतियों से और मुझे संवेद्य शुद्ध राशि से सहमत हूँ। ऊपर लिखित बैंक प्राप्त हुए लेकिन बसूली होनी है। मैं यह कथन करता हूँ कि मद सं० 16 के सामने लिखित वह बैंक है जिससे मैंने फसल/प्रावधिक उधार लिया है। मैं यह कथन करता हूँ कि ऊपर वर्णित विशिष्टियों के अनुसार तम्बाकू के स्टॉक का स्वामित्व ज्रेता के नाम अन्तर्गत हो गया है।

विक्रेता के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

42. तम्बाकू के क्रय/विक्रय और उसके संदायों/उसकी प्राप्तियों के संबंध में उल्लिखित स्पष्टीकारक टिप्पणों, निबन्धनों और शर्तों के लिए इसके उल्टी तरफ, और त० प० क्र० बाउचर एवं तम्बाकू उगाने वाले की पासबुक (त० उ० पा० बु०) पद्धति के अधीन और विवरण देने वाली विवरण-पुस्तिका देखिए।

केबल विक्रेताओं के प्रयोग के लिए :

सेवा में

प्रबन्धक,

\_\_\_\_\_ बैंक

प्रिय महोदय,

इस पत्र के पीछे उल्लिखित चेकों को आपको बैंक में भेरे..... तम्बाकू वाले चेखे में जमा करने के लिए स्वीकार करें। मेरे त० उ० पा० बुक सं० \_\_\_\_\_ के अनुसार श्रृणों के सम्बन्ध में आपको या अन्य बैंकों को और तम्बाकू बोर्ड/सरकार को देय राशि को भेरे खाते में से लेने के लिए मैं आपको प्राधिकृत करता हूँ।

भवदीय

तारीख :—

विक्रेता के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

तम्बाकू पत्ती क्रय बाउचर (त० प० क्र० बा०) एवं तम्बाकू उगाने वालों की पास बुक (त० उ० पा० बु०) पद्धति के अधीन तम्बाकू क्रय/विक्रय और उसके संदायों/उसकी प्राप्तियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकारक टिप्पण, निबन्धन और शर्तों

मद सं० 1 : ज्रेता :

स्पष्टीकरण के लिए तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1976 सम्बन्धी प्ररूप 5 और प्ररूप 6 देखिए।

मद सं० 1 से 8 तक :

सुविधा की दृष्टि से मद 1 से 8 तक सम्पूतः भरने के लिए रबर की मुहर की सहायता लें। ज्रेता इस कार्य के लिए एक रबर-मुहर बनवा लें। रबर मुहर प्ररूप में दिए गए रिक्त स्थान के बराबर की होनी चाहिए और घसरो की आकृति प्रत्येक मद के सामने दिए गए स्थान तक ही सीमित होनी चाहिए। रबर मुहर में मद संख्याएं भी अंकित रहें ताकि गलत मुहर लगने की संभावना न रहे। मुहर लगाते समय उपयुक्त सावधानी बरती जाए। इस प्रकार स्टाम्पित किये गये त० प० क्र० बा० को पकड़ने में किसी प्रकार की सविधता पैदा न हो।

मद सं० 16 :

उगाने वाले विक्रेता को फसल/भाबधिक ऋण देने वाले बैंक का नाम तम्बाकू उगाने वाले की पास बुक (त० उ० पा० बु०) के अनुसार दर्ज किया जाए। यदि किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया गया हो तो उस बैंक का नाम लिखें जहाँ लेखा है या जहाँ लेखा खोला जाना है।

मद सं० 25 से 32 :

कुल जोड़ समान रहे।

मद सं० 31 से 39 :

तम्बाकू ऋण के लिए भुगतान/तम्बाकू विक्रय के लिए प्राप्तियाँ बैंक द्वारा और/या नकद रूप में किया जा सकता है। तम्बाकू ऋण के लिए भुगतान/तम्बाकू विक्रय के लिए प्राप्तियाँ सम्पूर्ण रूप से अगर बैंक के द्वारा हों तो केता अपने बैंक से निकाले गए बैंक को विक्रेता के बैंक में, विक्रेता के खाते में जमा करेगा। यदि बाउचर के प्रति संदाय किस्तों में किया जाए तो तम्बाकू के ऋण मूल्य के कम से कम 50% की राशि की पहली किस्त का तुरन्त संदाय करना होगा बाकी रकम का भुगतान 120 दिनों के अन्दर अधिक से अधिक दो किस्तों में किया जाना चाहिए। यदि सारे माल के मूल्य का संदाय बैंक द्वारा किया जा रहा हो तो त० प० क० बाउचर के साथ-साथ रकम के पूरे निपटारे के लिए बैंक दिया/दिए जाए। तुरन्त संदाय वाले पहले बैंक पर ऋण की तारीख से 10 दिन आगे तक की तारीख होगी और बाकी बैंकों पर ऋण की तारीख से 120 दिन तक के आगे की तारीख वाली जाएगी।

मद सं० 33 :

जहाँ प्रयोध्य हो।

मद सं० 34 :

केता द्वारा तम्बाकू विक्रेता को देय यहाँ रकम जो उक्त केता द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में ऋण स्वरूप (i) पौष (ii) खाद (iii) कीटनाशी/माशिकोटमार (iv) ईंधन जैसे कोयला आदि खरीदने के लिए दी गई है त० उ० पा० बुक के अनुसार, अन्तिम भुगतान में से कम की जा सकती है। त० उ० पा० बुक के मद 13 के अधीन स्तम्भ 10 और 11 में प्रविष्टि व हस्ताक्षर किए बिना इस मद के अधीन किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। यह ध्यान रखें कि इस प्रकार की कटौती केवल अन्तिम संदाय में ही की जाएगी।

मद सं० 36 :

राशि और भास्थगित समय पर ब्याज की संगणना करके उसे अन्तिम भुगतान में जोड़ दिया जाय। 1978-79 फसल के लिए प्रभाय ब्याज दर 14% होगी। ऋण की तारीख से 10 दिन के अन्दर तुरन्त भुगतान करने पर कोई ब्याज प्रभायित करने की जरूरत नहीं है।

वाधारण :

1. हरे रंग में मुद्रित बाउचर की पहली प्रति में 1 से 30 तक की मदें समाविष्ट होंगी और केता ऋण के दिन उगाने वाले विक्रेता को यह प्रति भवश्य दे दे। बाउचर की पहली प्रति में मद 1 से 30 तक दर्ज किया जाने वाला विवरण बाद की तीन प्रतियों में भी कार्बन कागज के उपयोग से दर्ज किया जाए। कागज रंग में मुद्रित दूसरी प्रति केता के लिए है। मद सं० 31 से 39 के अनुसार ऋण मूल्य के संदाय के लिए नकद या बैंक के साथ गुलाबी रंग में मुद्रित तीसरी प्रति को केता विक्रेता को दी जानी है। विक्रेता उक्त तीसरी प्रति को बैंक के साथ बैंकर को दे दें। नीले रंग में मुद्रित चौथी प्रति को बैंक द्वारा संदाय करने की हालत में केता अपने बैंक द्वारा और नकद संदाय करने की दशा में सीधे तम्बाकू बोर्ड को तुरन्त भेज दे। बाउचर की पहली प्रति जिसमें 1 से 30 तक की मदें हैं, ऋण करते समय ही विक्रेता से ऋण की गई पत्ती के भार, श्रेणी

और दर के निर्णय के प्रतीक के रूप में विक्रेता को दे दी जाय। ऋण की तारीख से दस (10) दिन के अन्दर विक्रेता पहली प्रति दिखाकर नकद या बैंक वसूल कर ले और साथ ही साथ बाउचर की तीसरी प्रति भी ले लें जिसे तब तक भरकर तैयार रखा जाना चाहिए। केता और विक्रेता यह सुनिश्चित करें कि बाउचर की चारों प्रतियों में मद 1 से 30 तक की पूरी प्रविष्टियाँ एक समान हैं।

2. त० प० क० बाउचर के साथ-साथ सम्पूर्ण राशि के लिए बैंक भी तैयार किए जाएं और विशेष कर उन पर बाद की तारीखें अंकित की जाएं और केता अपने बैंक का बैंक विक्रेता के बैंक लेखा द्वारा विक्रेता के नाम (त० उ० पा० बुक में उल्लिखित बैंक) पर दें।

3. विक्रेता त० प० क० बाउचर के साथ बैंक और त० उ० पा० बुक भी अपने बैंकर को वसूली के लिए दें। त० प० क० बाउचर और बैंक के साथ त० उ० पा० बुक प्रस्तुत न करने की दशा में विलम्ब 50 गेगा/वसूली नहीं होगी। इसके लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा। विक्रेता को चाहिए कि वह हमेशा पास बुक भ्रमणन रखे और उसे न खोए।

4. ऐसे ऋण/अग्रिम आदि जो बैंकों को तम्बाकू बोर्ड/सरकार को विक्रेता से प्रतिसंदेय हों उन्हें उधार देने वाले बैंक अनुसूची के अनुसार जमा किए गए विक्रय भागों में से काट लें और उम्मुक्त अभिकरण को भेज दें।

5. त० प० क० बाउचर और/या त० उ० पा० बुक खो जाने के परिणामस्वरूप केवल विक्रेता जिम्मेदार होगा और तम्बाकू बोर्ड या बैंक जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए विक्रेता इन दोनों को सावधानीपूर्वक रखे।

6. दूर केता/विक्रेता के पास उसके अभिलेख, मन्त्रमं और पालन के लिए विवरण पुस्तिका को एक प्रति होगी। उक्त विवरण-पुस्तिका से अनभिज्ञ होना या उपेक्षा न रखना, पालन न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं माना जाएगा।

टो पं-3

प्रत्य-III

### तम्बाकू बोर्ड

तम्बाकू पत्ती ऋण बाउचर

(त० प० क० बा०)

और

तम्बाकू उगाने वाले की पास बुक

(त० उ० पा० बु०)

पद्धति पर विवरण पुस्तिका

प्रान्त प्रदेश की एक सी बी कमल को लागू

(1978 फसल-जिसका 1979 में विपणन किया जाना है)

प्रत्य-II

तम्बाकू बोर्ड द्वारा मुद्रित एवं प्रदान

त० प० क० बाउचर एवं त० उ० पास बुक

पद्धति संबन्धी विवरण-पुस्तिका

(त० प० क० बा० मद सं० 42 देखें)

1. एक० सी० बी० तम्बाकू के प्रत्येक केता को जब कभी वह उगाने वाले विक्रेता से तम्बाकू खरीदे, तम्बाकू बोर्ड द्वारा यथाविहित तम्बाकू पत्ती ऋण बाउचर (जिसे हममें भाग त० प० क० बाउचर कहा गया है)

तम्बाकू उगाने वाले को पास बुक (जिसे हममें आगे तं ३० पास बुक कहा गया है) में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करके, जारी करना चाहिए। तं ५० फं वाउचर एवं तं ३० पास बुक के नमूने इसके साथ संलग्न हैं (प्ररूप I एवं प्ररूप III)। हर उगाने वाले विज्ञेता को चाहिए कि वह तम्बाकू बेचने समय जेता से तं ५० फं वाउचर देने की मांग करे और उसी तरह हर जेता को चाहिए कि वह तं ५० फं वाउचर जारी करने समय तं ३० पास बुक हासिल करके उसमें आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करे। तम्बाकू खरीदने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा जारी और प्रदाय किए गए तं ५० फं वाउचर से भिन्न कोई वाउचर/प्ररूप का उपयोग नहीं किया जाएगा। तम्बाकू बोर्ड को छोड़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त तं ५० फं वाउचर में कोई बात जोड़ी/काटी/उपास्तर्गित नहीं की जाएगी।

2. हर फसल के समय जेता को चाहिए कि वह तम्बाकू बोर्ड से अपने कार्य के लिए विहित प्ररूप पर आवेदन करके और उसकी औपचारिकताओं को पूरा करके पर्याप्त संख्या में तं ५० फं वाउचर के खाली प्ररूप प्राप्त कर ले। प्ररूपों के लिए जेता का आवेदन पत्र, तम्बाकू बोर्ड के कार्यालय में कम से कम एक माह पहले स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र और उसके साथ पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं का नमूना (प्ररूप-4) संलग्न है।

3. तं ५० फं वाउचर चार प्रतियों में होंगे और मूल प्रति में मध सं० 1 से 30 तक तथा अन्य तीन प्रतियों में मध सं० 1 से 42 तक मध होंगी। हरे रंग में मुद्रित मूल प्रति उगाने वाले विज्ञेता के लिये होगी। इस मूल प्रति में 1 से 30 तक की जाने वाली प्रविष्टियां कार्बन कागज का उपयोग करके बाकी तीन प्रतियों में भी अंकित की जाएंगी। काले रंग में मुद्रित दूसरी प्रति जेता के लिए है। गुलाबी रंग में मुद्रित तीसरी प्रति उगाने वाले विज्ञेता के लिए है। मध सं० 31 से 39 के अनुसार क्रय कीमत का भुगतान करने समय जेता द्वारा यह प्रति नकद या बैंक के साथ उगाने वाले विज्ञेता को दी जाएगी। यदि बैंक द्वारा भुगतान किया गया है तो उगाने वाले विज्ञेता को इस तीसरी प्रति को बैंक के साथ बेकर को देना चाहिए। नीले रंग में मुद्रित चौथी प्रति तम्बाकू बोर्ड के लिए है। जेता को चाहिए कि वह चौथी प्रति को बैंक द्वारा भुगतान करने पर अपने बैंक की मार्फत और यदि नकद भुगतान किया गया है तो सीधे, तम्बाकू बोर्ड को तुरन्त भेज दे। वाउचर की पहली प्रति जिसमें मध सं० 1 से 30 दी गई है, क्रय करने समय जेता को विज्ञेता द्वारा बेची गई तम्बाकू का दजन धेणी, और दर अंकित करने के लिए दी जाएगी। क्रय करने के 10 दिन के अन्दर विज्ञेता, जेता को पहली प्रति दिखाकर नकद या बैंक प्राप्त कर लेगा और उसके साथ तीसरी प्रति भी ले लेगा जिसे जेता उस समय भरकर तैयार रखेगा। जेता और विज्ञेता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाउचर की आगे प्रतियों में मध सं० 1 से 30 तक की प्रविष्टियां समान रूप से दर्ज हैं। तम्बाकू बोर्ड के पास वाउचर प्ररूपों के लिए आवेदन भेजने से पहले जेता को इसके पूर्व प्राप्त किए गए वाउचर प्ररूपों का लेखा तम्बाकू बोर्ड को समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या अन्य सरकारी संगठन भी तम्बाकू बोर्ड की चौथी प्रति को देख सकते हैं। यदि विज्ञेता तं ३० पास बुक या/और तं ५० फं वाउचर की तीसरी प्रति खो देता है तो चौथी प्रति के आधार पर यथासंभव अभिलेख तैयार किया जाएगा।

4. जेता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कार्बन प्रतियां पढ़ने योग्य लिखी जाएं। मूल प्रति को बाल पेन से भरा जाए। तं ५० फं वाउचर की सभी मधों को सम्यक्तः भरा जाए और किसी भी मध के सामने के स्थान को खाली न छोड़ा जाए। एक बार लिखे जाने के बाद अक्षरों को बदलने का प्रयत्न न करे। यदि कोई शुद्धि की जाती है तो उस पर पूर्ण हस्ताक्षर कर उसे अधिप्रमाणित किया जाए।

5. प्रत्येक जेता इसके पूर्व कि वह आगामी फसल में अपने कार्यों के लिए तन खाली प्ररूप प्राप्त कर सके, आगामी फसल के लिए वाउचर

प्ररूपों के उपयोग के लिए प्ररूपों की अपेक्षित संख्या बचाने के लिए, आवेदन पत्र में दिए गए प्रीफार्मों के अनुसार पिछली फसल में उपयोग में लाए गए वाउचर प्ररूपों का पूरा लेखा देगा। ऐसे सभी वाउचरों को जो गलत रूप में जारी किए गए हैं या खराब हो गए या फट गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं या दूधित हो गए हैं, रद्द कर दिया जाएगा, परिष्कृत किया जाएगा और पिछली फसल के उपयोग में न लाए गए खाली वाउचर प्ररूपों के साथ उन्हें तम्बाकू बोर्ड की वापस कर दिया जाएगा। प्रत्येक जेता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तम्बाकू बोर्ड की समाधानप्रद रूप में इन औपचारिकताओं का पालन न किए जाने पर, नए प्ररूप जारी नहीं किए जाएंगे।

6. यद्यपि ऊपर पैरा 3 में यह कहा गया है कि उस समय जब कि तं ३० पास बुक और/या तं ५० फं वाउचर की तीसरी प्रति खो जाती है तब यथासंभव अभिलेख चौथी प्रति के आधार पर पुनः तैयार किया जाएगा, फिर भी विज्ञेता को यह बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि तं ५० फं वाउचर या तं ३० पास बुक की प्रति अकस्मात या जानबूझकर खो जाने और उसके परिणामों के लिए वह जिम्मेदार होगा और तम्बाकू बोर्ड या बैंक जिम्मेदार नहीं होंगे। अतः यह लाजिमी होगा कि वह तं ५० फं वाउचर की प्रति की, ऐसे समय तक जब वह उसे अपने बैंकर पेश करे, तत्परता से संरक्षा और परिरक्षा करेगा क्योंकि इसका उपयोग एक विक्रय या एक फसल से अधिक समय तक होगा और उसकी उपज खरीदी जाएगी तथा उसको उधार तं ३० पास बुक पेश किए जाने पर ही दिया जाएगा। विज्ञेता को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यथासंभव अभिलेख का पुनः निर्माण पूर्णतः तम्बाकू बोर्ड के विवेकानुसार होगा और इस संबंध में अधिरोपित किए जाने वाले बोर्ड के नियमों और विनियमों के अधीन होगा।

7. तम्बाकू के विक्रय-प्राप्त को बतूल करने के लिए; यदि बैंक भुगतान किया जाता है तो तम्बाकू उगाने वाले विज्ञेता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह बैंक में अपना खाता खोलने चाहे उसने बैंक से उधार लिया हो या न लिया हो। बैंक की मार्फत बतूल किया गया विक्रय आगामी आहरणीय है या विज्ञेता के किसी अन्य खाते में उसीमा तक वह रकम अंतरणीय है जो उस बैंक को या किसी अन्य बैंक को या सरकार को/तम्बाकू बोर्ड को जिसकी ओर से रकम नामें डाणी जा सकती हो, उससे शीघ्र ऋणों के प्रति संदाय के लिए, उसके खाते में नाम डालने के पश्चात् उसको उपलब्ध हो। अतः विज्ञेता के लिए यह आवश्यक है वह यह सुनिश्चित करे कि उसकी तं ३० पास बुक में अपने वर्ष फसल और अन्य उधारों के लिए सुसंगत राशि जमा है और तम्बाकू बोर्ड में उसका रजिस्ट्रीकरण संस्थापक कायम है।

8. उगाने वाले विज्ञेता को, तम्बाकू का पूरा क्रय मूल्य तुरन्त भुगतान करना आदर्श पद्धति होगी। यदि यह संभव न हो तो कम से कम से 50 प्रतिशत विक्रय मूल्य का भुगतान तुरन्त करना होगा। जेष राशि और उग पर प्रत्येक फसल के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाते वाली दर पर ध्याज का भुगतान हर हालत में अधिक से अधिक 120 दिन के भीतर और अधिक से अधिक दो किस्तों में करना होगा।

9. तं ५० फं वाउचर का भुगतान नकद या बैंक से किया जाएगा।

10. तं ५० फं वाउचर का भुगतान जेता द्वारा अपने बैंक पर लिखे गए बैंक द्वारा, उगाने वाले विज्ञेता के बैंक के पक्ष में, विज्ञेता के खाते जमा करने द्वारा, किया जा सकेगा। इस प्रयोजन के लिए उसे तं ३० पास बुक देखना चाहिए और उस बैंक के पक्ष में बैंक जारी करना चाहिए जिसमें उगाने वाले ने फसल के लिए आवधिक उधार लिया है।

11. जहाँ क्रय मूल्य का भुगतान बैंक और किस्ती में किया जाता है वहाँ अधिक से अधिक तीन बैंक जारी किए जा सकते हैं। पहला बैंक तुरन्त दिया जाएगा; यदि आवश्यक है तो उस बैंक पर, क्रय की तारीख से दस दिन आगे तक की तारीख डाली जा सकती है। अन्य बैंकों पर भी क्रय की तारीख से 120 दिन के आगे तक की तारीख डाली जा सकती है और यह संबंधित त०प०क्र० वाउचर के क्रय मूल्य का पूर्ण भुगतान होगा।

12. यदि क्रय कीमत का भुगतान नकद और किस्ती में किया जाता है तो वह विक्रय प्रतिफल के 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए और क्रय की तारीख से 10 दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए। नकद भुगतान के बाद शेष रकम का भुगतान, क्रय की तारीख से 120 दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए और वह संबंधित त०प०क्र० वाउचर के क्रय मूल्य के पूर्ण भुगतान में होता चाहिए।

13. उक्त सभी बैंकों या नकद भुगतान मिलकर उस शुद्ध रकम के बराबर होना चाहिए जो उगाने वाले विक्रेता को (i) पौध, (ii) खाद, (iii) कीटनाशी नाशकीटनाश और (iv) ईंधन, जैसे फोयला आदि के लिए वस्तु या नकदी के रूप में दिए गए उधार/अग्रिम की बाबत क्रेता को विक्रेता से शोध्य किसी राशि की कटौती करने के पश्चात् आती है। सभी बैंकों एक साथ उक्त रीति में जारी की जानी चाहिए। उन पर निष्पत्ति: कोई आगामी तारीख पड़ी होनी चाहिए और तम्बाकू के क्रय के समय उनके साथ संबंधित त०प०क्र० वाउचर होना चाहिए।

14. प्रथम बैंक या नकद भुगतान, पैरा 8 में उल्लिखित क्रय मूल्य के 50 प्रतिशत से कम का नहीं होना चाहिए। शेष रकम का भुगतान ऐसा पूर्ण भुगतान होना चाहिए जिसमें से विक्रेता से क्रेता को शोध्य रकम निकाल दी गई है किन्तु जिसमें व्याज की वह रकम जोड़ दी गई है जो तम्बाकू के क्रय की तारीख से विक्रेता को आस्थायित भुगतान की रकम की बाबत संबंधित अवधि के लिए शोध्य है। व्याज की दर प्रत्येक फसल के लिए तम्बाकू बोर्ड चिनिदिष्ट करेगा। क्रय की तारीख से 10 दिन के भीतर नकद भुगतान पर कोई व्याज प्रभाव नहीं होगा।

15. कम से कम 50 प्रतिशत का बैंक द्वारा भुगतान करने के लिए तम्बाकू के क्रेता के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी बैंक में एक तम्बाकू विशेष खाता (जो उसके प्रायिक बैंक में चासु/बचन आदि खाते में भिन्न होगा) खोलें, बाहे उमने बैंक से उधार लिया हो या नहीं और ऐसे भुगतान के लिए ऐसे खाते में पर्याप्त धन जमा रखेगा। इसी प्रकार उसे अपने अन्य खातों में भी पर्याप्त धन रखना होगा जिससे कि उसके ऋणों के लिए उसके द्वारा जारी की गई बैंक नियत तारीख की भुनाई जा सकें। उसे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसका प्राधिकृत अभिकर्ता, जिसके हस्ताक्षरों का नमूना संबंधित बैंकों को पहले ही भेज दिया जाएगा, त०प०क्र० वाउचर के साथ ही बैंक जारी कर सके।

16. यदि तम्बाकू क्रेता स्टॉक को गिरबी रखकर किसी बैंक से उधार लेता है तो पञ्चातकधित, उधार की रकम क्रेता के नकद प्रत्यय/पैकिंग प्रत्यय/शिपिंग उधार आदि खाते में जमा करेगा। इन खातों में से किसी से भी धन तम्बाकू विशेष खाते को अन्तर्लिप्त किया जाएगा जिसमें कि जब भी बैंक प्रस्तुत की जाए तुरन्त भुगतान हो जाए।

17. बैंक क्रेता से एक पत्र लेगा जिसके द्वारा बैंक को यह प्राधिकार दिया जाएगा कि वह क्रेता के किसी भी खाते से धन, तम्बाकू विशेष खाते को, क्रेता से कोई और पूछताछ किए बिना, उस दशा में अन्तर्लिप्त कर दे जब भी तम्बाकू विशेष खाते में जमा धन, क्रेता द्वारा अपने त०प०क्र० वाउचर के लिए 50 प्रतिशत के तुरन्त भुगतान के लिए जारी की गई बैंक चेकें उममें कम पड़े। इस प्रयोजन के लिए क्रेता को बैंक के साथ कोई उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी। इसी प्रकार उसे अपने बैंक को भी ऐसी ही प्राधिकार पत्र देना चाहिए, जिसमें कि बैंक अन्य बैंकों के संबंध में भुगतान करने के लिए उनके किसी खाते से रकम निकाल कर सके।

18. क्रेता को (और विक्रेता को भी), यह ध्यान रखना चाहिए कि बैंक बैंकों और त०प०क्र० वाउचर पर ही भुगतान करेगा और उमसीमा तक करेगा जिस तक कि धन, उस बैंक में क्रेता के खाते में जमा होगा। बैंक बैंकों की होने और उनके परिणामों के लिए बैंक या तम्बाकू बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। यदि उनके खाते में नियत तारीख को भुगतान के लिए रकम कम पड़ जाती है तो ऐसी बैंकों और उमके परिणामों के लिए क्रेता ही एकमात्र जिम्मेदार होगा। इससे बैंक उसके खाते से रकम का भुगतान करने में असफल हो जाएगा और इसकी सूचना तम्बाकू बोर्ड को दी जाएगी जो उमके रोजमर्रा की को तिलस्बित/रद्द कर सकेगा और उसे आगे संयवहार करने से रोक सकेगा।

19. क्रेता को स्पष्टतः यह समझ लेना चाहिए कि बैंक उमके प्रत्यय में वृद्धि करने या उमकी सीमा बढ़ाने में प्रायिक बैंकारी मिद्धातों का पालन करेगा और उसी सीमा तक उधार देगा जिस तक अनुशेष और सभव है। त०प०क्र० वाउचर और त०उ० पासबुक पद्धति के अधीन कम से कम 50 प्रतिशत के तुरन्त भुगतान की शर्त आदि किसी क्रेता को बैंक से किसी अतिरिक्त प्रत्यय का हकदार नहीं बनाती है। इन पद्धति के अधीन यही अनुध्यान है कि तम्बाकू के स्टॉक के गिरबी/आउमान आदि के विरुद्ध बैंक द्वारा क्रेता के प्रत्यय में वृद्धि उगाने वाला विक्रेता तक सीध में सीध पहुंच सके और असंदन स्टॉक पर व्यापार पर रोक लगाई जा सके और क्रेता को साथ कारबार में बंध सके।

20. बैंक अतिरिक्त प्रत्यय/अतिरिक्त क्रय के किसी निवेदन पर प्रायिक बैंकारी मिद्धातों के अनुसार गुणागुण के आधार पर विचार करेगी।

### प्रकरण III

तम्बाकू बोर्ड द्वारा मुद्रित एवं प्रदत्त

क्रम सं०

तम्बाकू बोर्ड

तम्बाकू उगाने वाले की पाग बुक

(त०उ०पा०बु०)

[मद 6 के स्तम्भ 9 को छोड़कर, नियम 33(3) के अधीन प्रकरण 1 और नियम 35(5) के अधीन प्रकरण 2 में दिए गए रूप में तम्बाकू उगाने वाले द्वारा भरा जाने के लिए]

1. उगाने वाले का नाम व पता . . . . .
2. पिता या पति का नाम . . . . .
3. उगाने वाले की तम्बाकू बोर्ड रजिस्ट्रीकरण संख्या (त०बो०उ०र०सं०)
4. बैंक/बैंको का/के नाम व पता/पते जहाँ से उपज/सावधि उधार लिये जाते हैं . . . . .
5. अन्य बैंक/बैंकों का/के नाम जहाँ लेखा है . . . . .

स्थान :

उगाने वाले के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

दिनांक :

6. हेक्टेयरों में क्षेत्रफल एवं रजिस्ट्री की विशिष्टियाँ

| वर्ष | गाँव का नाम, तालुका और जिला | सर्वेक्षण संख्या | क्षेत्रफल विस्तार |           | प्रकृ 2 में योग के समान | त०उ०बो०र०सं० बंध विधिमाम्य तारीख |    | प्रमाणित किया जाता है कि प्रकृ 1 और 2 में स्तम्भ 1 से 8 तक की प्रविष्टियाँ सही हैं (तम्बाकू बोर्ड अधिकारी के हस्ताक्षर व तारीख) |
|------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|----|---|
|      |                             |                  | विजी              | पट्टा धृत |                         | से                               | तक |   |
| 1    | 2                           | 3                | 4                 | 5         | 6                       | 7                                | 8  | 9   |

7. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अनुज्ञप्ति संख्या के०उ०बो०सं०

प्रमाणित  
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के  
हस्ताक्षर

8. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सर्वेक्षण शुल्क क्रम संख्यांक

| वर्ष     | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| संख्यांक |         |         |         |         |         |         |

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर  
एवं दिनांक

उगाने वाले का फोटो एवं अन्य विशिष्टियाँ के लिए स्थान :



## 9. वास्तविक क्षेत्र जिस पर छपि की गई है और उपज

| हेक्टेयरों में क्षेत्रफल | कि० प्रा० में उत्पादन | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर |
|--------------------------|-----------------------|---|
|--------------------------|-----------------------|---|

(केता द्वारा भरे जाने के लिए)

| 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## 10. सरकार को प्रेषित उद्ग्रहण यदि हो तो

प्रेषित रकम (रुपयों में)

केता या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(बैंकों द्वारा भरे जाने के लिए)

## 11. बैंक द्वारा उपज अर्पण

(रुपयों में)

| तारीख | बैंक का नाम | रकम अग्रिम | अग्रिम देने वाले बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं तारीख | वसूल की गई एवं प्रेषित रकम | देय प्रतिशेष की रकम | प्रेषित करने वाले बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं तारीख |
|-------|-------------|------------|--|----------------------------|---------------------|---|
| 1     | 2           | 3          | 4  | 5                          | 6                   | 7   |

(बैंकों द्वारा भरे जाने के लिए)

12. बैंकों से धार्यागारों के लिए सावधिक उधार

(रूपों में)

| तारीख | बैंक का नाम | प्रथिम रकम | किस्त देय की रकम | प्रथिम देने वाले बैंक अधिकारी के हस्ता-<br>क्षर एवं तारीख | वसूल एवं प्रेषित की गई किस्त | वर्तमान बकाया रकम | प्रेषित करने वाले बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं तारीख |
|-------|-------------|------------|------------------|---|------------------------------|-------------------|---|
| 1     | 2           | 3          | 4                | 5   | 6                            | 7                 | 8   |

नोट :—बैंक वसूल की गई रकम को, उधार देने वाले बैंक को प्रेषित करेगा।

(केता द्वारा भरे जाने के लिए)

13. केता द्वारा निवेश हेतु उत्पादक को दिये गये ऋण

(रूपों में)

| वर्ष | क्रेता का नाम | किस प्रयोजन के लिए ऋण दिया गया<br>*विनिविष्ट करें | यदि माल के रूप में है तो<br>मात्रा मूल्य | यदि नकद के रूप में है | कुल दिया गया ऋण<br>(5 + 6) | क्रेता के हस्ताक्षर एवं तारीख<br>@ | उगाने वाले के हस्ताक्षर | वापस चुकाई गई रकम | वर्तमान बकाया रकम | क्रेता के @ हस्ताक्षर एवं तारीख |    |
|------|---------------|---|--|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----|
| 1    | 2             | 3   | 4  | 5                     | 6                          | 7                                  | 8                       | 9                 | 10                | 11                              | 12 |

नोट :— \* (1) पौष, (2) उर्वरक-विशेष, (3) कीट नाशक/माश कीटमार-विशेष और (4) ईंधन (कोयला आदि विनिविष्ट करें) किसी अन्य प्रयोजन के लिए दिए गए उधार ऋण को यहाँ लिखें।

@ या, उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा।

(तम्बाकू बोर्ड/संबंधित सरकारी विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

## 14. तम्बाकू बोर्ड/सरकारी उधार अधिनियम

(सूचियों में)

| वर्ष | अधिकरण का नाम | किस प्रयोजन के लिए उधार दिया गया विनिविष्ट करें | यदि माल के रूप में है तो मात्रा | यदि नकद रूप में है तो रकम | कुल दिए गए उधार की रकम (5+6) | वेय किस्त की रकम देय | सरकारी/ तम्बाकू बोर्ड अधिकारी के हस्ताक्षर | वसूल की गयी एवं प्रेषित किस्त | वर्तमान बकाया रकम | सरकारी/तम्बाकू बोर्ड अधिकारी के हस्ताक्षर एवं तारीख |    |
|------|---------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------|---|----|
| 1    | 2             | 3   | 4                               | 5                         | 6                            | 7                    | 8  | 9                             | 10                | 11  | 12 |

प्रारूप-4

तम्बाकू पत्ती क्रय बाउचर प्रारूप के लिये आवेदन-पत्र

प्रेषक,

कंपनी का नाम :

प्रधान कार्यालय का स्थान :

तम्बाकू बोर्ड रजिस्ट्रीकरण सं० :

सेवा में,

अध्यक्ष,

तम्बाकू बोर्ड,

गुण्टूर ।

से-----तक विधिमार्ग

प्रिय महोदय,

1. मैं-----फसल के दौरान अपनी संक्रियाओं के लिये आपसे अधिप्राप्त किये गये तम्बाकू-पत्ती-क्रय बाउचर प्रारूपों का लेखा निम्न प्रकार देता हूँ ।

क्रम संख्या से      क्रम संख्या तक      बाउचरों की कुल संख्या

- (1) अधिप्राप्त बाउचर-प्रारूपों की संख्या (3+4)
- (2) विकृत बाउचर-प्रारूपों की संख्या (पृष्ठ 2 पर क्रम संख्या विनिविष्ट करें)
- (3) प्रयुक्त बाउचर-प्रारूपों की संख्या
- (4) वापस किये गए बाउचर-प्रारूपों की संख्या (विकृत और अप्रयुक्त प्रारूप)

2. जैसा ऊपर (2) और (4) में दिया गया है, विकृत और अप्रयुक्त बाउचर प्रारूप इसके साथ वापस किये जाते हैं ।

3.-----को समाप्त हुई फसल के लिये उगाने वालों/विक्रेताओं से अपने द्वारा किये गये तम्बाकू क्रयों की बाबत अपने सभी शोध/बकाया रकम मैंने चुका दी है । इस संबंध में मेरे अधिकारों का यह प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है कि तम्बाकू के क्रय के लिये सभी शोध/बकाया रकम मैंने चुका दी है । मेरे मास-वार क्रयों का लेखा नीचे दिया गया है ।

| मास     | निम्नलिखित से तम्बाकू कय की गई |          | प्रदत्त रकम   |          | मास के अन्त में कुल बकाया रकम |          |            |          |
|---------|--------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|----------|------------|----------|
|         | परिमाण (कि० ग्रा०)             |          | मूल्य (रुपये) |          | रुपये                         |          |            |          |
|         | उगाने वाला                     | व्यीहारी | उगाने वाला    | व्यीहारी | उगाने वाला                    | व्यीहारी | उगाने वाला | व्यीहारी |
| 1       | 2                              | 3        | 4             | 5        | 6                             | 7        | 8          | 9        |
| जनवरी   |                                |          |               |          |                               |          |            |          |
| फरवरी   |                                |          |               |          |                               |          |            |          |
| मार्च   |                                |          |               |          |                               |          |            |          |
| अप्रैल  |                                |          |               |          |                               |          |            |          |
| मई      |                                |          |               |          |                               |          |            |          |
| जून     |                                |          |               |          |                               |          |            |          |
| जुलाई   |                                |          |               |          |                               |          |            |          |
| अगस्त   |                                |          |               |          |                               |          |            |          |
| सितम्बर |                                |          |               |          |                               |          |            |          |
| अक्तूबर |                                |          |               |          |                               |          |            |          |
| नवम्बर  |                                |          |               |          |                               |          |            |          |
| दिसम्बर |                                |          |               |          |                               |          |            |          |
| कुल     |                                |          |               |          |                               |          |            |          |

4. मैं तम्बाकू बोर्ड परिपत्र संख्या 4/77, तारीख 17-3-77 के अनुसार बैंक का प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न करता हूँ।

5. कृपया-----फसल के लिये----- (शब्दों में)-----केवल) त०प० क्र० वाउचर प्ररूपों का प्रदाय करें।

भवदीय,

स्थान :

क्रेता के लिये और उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख :

6. -----तम्बाकू फसल के लिये कम संख्यांक-----से कम संख्यांक-----तक के निम्नलिखित त०प० क्र० वाउचर प्ररूप दिये गये इन प्ररूपों की कुल सं०----- (शब्दों में)-----केवल है।

स्थान :

तारीख :

तम्बाकू बोर्ड अधिकारी के हस्ताक्षर

7. -----तम्बाकू फसल के लिये तम्बाकू बोर्ड से कम संख्यांक-----से कम संख्यांक-----तक के निम्नलिखित त०प० क्र० वाउचर प्ररूप प्राप्त किये। इन प्ररूपों की कुल संख्या----- (शब्दों में)-----केवल है।

8. त०प०क० वाउचर प्रणाली के जलटे पृष्ठ और तम्बाकू बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिये जारी किये गये वाउचर में तम्बाकू के क्रय/विक्रय और भुगतानों/प्राप्तियों से संबंधित स्पष्टीकारक टिप्पण में दिये गये, निबन्धनों और शर्तों को ध्यान में रख लिया है और मैं उनका पालन करने के लिये सहमत हूँ। मैं तम्बाकू बोर्ड द्वारा मुद्रित और तम्बाकू उगाने वालों को प्रदत्त तम्बाकू उगाने वाली की पास बुक (त०उ०पा०बु०) में प्रासंगिक प्रविष्टियाँ करने के लिये भी सहमत हूँ और उसमें वर्णित बातों का ध्यान रखूँगा।

स्थान :

तारीख :

क्षेत्र के हुस्ताक्षर

संदर्भ : मस 1 (ii)

वापस किये गये विकृत प्रणाली के क्रम संख्यांक :

प्रकृप-5

तम्बाकू पत्ती क्रय वाउचरों के लेखों को दर्शित करने वाला प्रणाली  
कंपनी का नाम (क्षेत्र) और पता

टी०बी०आर० सं०

| तारीख | प्राप्त वाउचरों की संख्या |          | वाउचरों की कुल संख्या | संवत्स लागत और रसीद संख्यांक | प्रयुक्त वाउचरों की संख्या |          | प्रयुक्त वाउचरों की कुल संख्या | विकृत वाउचरों की संख्या | विकृत वाउचरों की कुल संख्या | कुल योग (8+11) | अति-पेच (4-12) |
|-------|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|       | क्र० सं०                  | क्र० सं० |                       |                              | क्र० सं०                   | क्र० सं० |                                | क्र० सं०                | क्र० सं०                    |                |                |
|       | से                        | तक       |                       |                              | से                         | तक       |                                | से                      | तक                          |                |                |
| 1     | 2                         | 3        | 4                     | 5                            | 6                          | 7        | 8                              | 9                       | 10                          | 11             | 12             |
|       |                           |          |                       |                              |                            |          |                                |                         |                             |                |                |

## MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)  
(Tobacco Board)

New Delhi, the 2nd January, 1979

No. 8/25/78-EP. (Agri. VI).—Whereas the Tobacco Board satisfied that in the interests of growers, manufacturers and dealers and the nation, it is expedient and necessary to regulate the marketing of virginia tobacco;

In exercise of the powers conferred by section 33 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Tobacco Board hereby makes the following regulations. the same having been approved by the Central Government as required by sub-section (3) of the said section, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(i) These regulations may be called the Tobacco Board Regulations, 1979.

(ii) They shall come into force on the day of their publication in the Official Gazette.

(iii) These regulations shall apply to the State of Andhra Pradesh.

2. **Definitions.**—In these regulations unless the context otherwise requires :

- "Board" means the Tobacco Board established under section 4;
- "dealer" means a dealer in tobacco;
- "registered" means, except in the expression "registered grower", registered under Chapter III of the Act and the rules made thereunder;
- "registered grower" means a person who has obtained a certificate of registration under section 10 for growing virginia tobacco;

- (e) "Act" means the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975);
- (f) "rules" means rules made under section 32 of the Tobacco Board Act, 1975.
- (g) "Form" means a Form appended to these regulations;
- (h) "registered exporter, packer, dealer and auctioneer" means a person who has obtained the relevant certificate of registration under section 12 of the Act.

3. **Voucher System.**—Flue cured virginia tobacco shall be sold by registered growers and purchased by the registered exporters, dealers, packers and auctioneers according to the Tobacco Leaf Purchase Voucher and the Tobacco Growers Passbook System as hereinafter prescribed (hereinafter called the Voucher System).

4. All purchases by the registered exporters, dealers, packers and auctioneers (hereinafter referred to as purchasers) from the registered growers (hereinafter referred to as sellers) shall be conducted through the tobacco leaf purchase voucher which shall be in Form I annexed to these regulations. All the terms, conditions and features stipulated in Form I shall be observed both by the purchaser and the seller of flue cured virginia tobacco. No voucher other than the one printed and supplied by the Tobacco Board shall be used by the purchaser or seller.

5. (a) Every purchaser shall make a payment of not less than 50 per cent of the sale consideration within 10 days of the date of purchase and shall pay the remainder in not more than two instalments within 120 days of the date of purchase, with interest at the rate of 14 per cent per annum on the deferred payments with effect from the date of purchase. For payments of not less than 50 per cent if made within 10 days of the date of purchase, no interest will be payable.

(b) Payment can be made through cheques or in cash or both.

6. (a) The voucher shall be in quadruplicate with the first copy bearing items 1 to 30 and the remaining 3 copies items 1 to 42 of Form I. The first copy of the voucher printed in green covering items 1 to 30 of Form I is meant to be furnished to the seller by the purchaser on the day of purchase without fail. The entries against items 1 to 30 filled in the first copy should automatically be reflected in the other 3 copies through the use of carbon. The second copy printed in black is meant for the purchaser. The third copy printed in pink is to be issued to the seller along with cash or cheque(s) for payment of the purchase value as per items 31 to 39 of Form I. The seller should present the cheque(s) along with the said third copy of the voucher to the banker.

The fourth copy printed in blue is to be sent promptly to the Tobacco Board through the purchaser's bank if cheque payment is made and directly if cash payment is made. The first copy of the voucher covering items 1 to 30 has to be given at the time of purchase itself to the seller in token of the weight, grade and rate of tobacco sold by him to the purchaser. When the cheques or cash payment are ready within 10 days of purchase, the seller should produce the first copy to the purchaser and collect the payment along with the third copy of the voucher which would have been filled in by the purchaser by then. The seller and purchaser should ensure that entries against items 1 to 30 tally in all the 4 copies of the voucher.

(b) Cheque(s) shall be issued simultaneously with the voucher in full settlement and specifically drawn post-dated on the purchaser's bank in favour of the seller's bank (namely, the bank where the seller has taken loans) account seller.

7. The terms, conditions and features of the voucher system stipulated in the voucher at Form I and the brochure printed and supplied by the Tobacco Board shall govern the purchases made by the purchasers from the sellers. The brochure is annexed to these regulations as Form II.

8. Every registered grower shall maintain a tobacco growers passbook in Form III. He shall present the voucher along with the cheque and the passbook to his bankers for realisation of the sale proceeds.

9. (a) Every purchaser shall obtain the vouchers in Form I by making an application to the Tobacco Board in Form IV.

(b) Those who secure the vouchers supplied by the Tobacco Board shall maintain an account of the vouchers in Form V annexed to these regulations. This account shall on demand be made available for inspection to all officers of the Tobacco Board not below the rank of a Technical Supervisor.

10. The registration of any person as an exporter, packer, dealer or auctioneer under rule 35 may be cancelled by the Committee constituted by the Tobacco Board under rule 36 of the Tobacco Board Rules, after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard, if it is satisfied (i) that the registration or its renewal was obtained by furnishing incorrect information or (ii) that the person registered has contravened any of the provisions of the Tobacco Board Act or the Rules made thereunder or these regulations.

Sd/-

S. CHAKRAVARTHY, Chairman.

#### FORM I

Printed and supplied by the Tobacco Board

#### TOBACCO LEAF PURCHASE VOUCHER

(To be filled and issued by the Purchaser of flue cured virginia Tobacco from growers)

Applicable to Andhra Pradesh FCV Crop (1978 crop—marketed in 1979)

1. Name of purchaser & address
2. Name of Head Office & address
3. Tobacco Board Reg. No.
4. Valid from—to (dates)—
5. Central Excise licence No.
6. Valid from—to (dates)—
7. Exporter's Code No.

8. Name (s) &amp; address (es) of purchaser's Bank(s)

Voucher No.

9. Branch of purchaser

10. Date of purchase

11. Village of purchase

12. Running No.

13. Lot No.

14. No. of bundles

offered for sale

Rejected

15. T. P. 3 No.

16. Name and address of seller's bank

17. Purchased tobacco, as detailed below, from ..... Son of .....  
 Address ..... with Tobacco  
 Board Grower's Registration (T.B.G.R.) No. ....

| No. |               | Grade | Rate per<br>100 kgs.<br>in Rs. | Weight in Kgs. |      |     | Amount |    | No. (Contd.) |               | Grade | Rate per<br>100 kgs.<br>in Rs. | Weight in Kgs. |      |     | Amount |    |
|-----|---------------|-------|--------------------------------|----------------|------|-----|--------|----|--------------|---------------|-------|--------------------------------|----------------|------|-----|--------|----|
| Sl. | Excise<br>Sl. |       |                                | Gross          | Tare | Net | Rs.    | P. | Sl.          | Excise<br>Sl. |       |                                | Gross          | Tare | Net | Rs.    | P. |
| 18  | 19            | 20    | 21                             | 22             | 23   | 24  | 25     |    | 18           | 19            | 20    | 21                             | 22             | 23   | 24  | 25     |    |

TOTAL

TOTAL

26. Certification of Tobacco Board for gradation and price where given

27. Weighed by

28. Prepared by

29. Signature of the person authorised to  
sign on behalf of the purchaser.30. Signature /thumb impression of the  
seller.

For the purchaser (signature &amp; date)

| Payable to<br>seller | Gross vide<br>25 | Less cess, etc.<br>due to Govt. | Less dues from<br>seller | Net 32—<br>(33+34) | Add interest<br>payable | Total net<br>(35+36) | Payable on<br>date | Vide<br>Cheque No. |
|----------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 31                   | 32               | 33                              | 34                       | 35                 | 36                      | 37                   | 38                 | 39                 |
| First instalment     |                  |                                 | NIL                      |                    | NIL                     |                      |                    |                    |
| Second instalment    |                  | NIL                             | NIL                      |                    | NIL                     |                      |                    |                    |
| Final payment        |                  | NIL                             |                          |                    |                         |                      |                    |                    |

TOTAL

40. I have read the explanatory notes and terms and conditions of purchase/sale of tobacco and payments/receipts thereof as on reverse and in the brochure and agree to the same. I have issued cheque(s) as mentioned in 39 above on "..... Bank" drawn in favour of "..... Bank A/c. Seller" in full settlement as in 37.

Place

Dated:

Signature of the person authorised to sign on behalf of the purchaser

41. I have read the explanatory notes and terms and conditions of purchase/sale of tobacco and payments/receipts thereof as on reverse and in the brochure and agree to the same. I agree to the above deductions and net amount payable to me. Received the cheques as above subject to collection. I hereby state that the name of the Bank indicated against item 16 is the bank from which I have borrowed crop/term loans. I hereby state that the ownership of the stocks of tobacco as per particulars given above stands transferred to the purchaser.

Place:

Dated:

Signature/thumb impression of seller

42. For explanatory notes and terms and conditions of purchase/sale of tobacco and payments/receipts thereof, please see reverse and the brochure giving further details under the T.L.P.V. and Tobacco Growers' Pass Book (T.G.P.B.) System.

For Seller's Use only:

To

The Manager,

Bank

Dear Sir,

The cheques mentioned on the reverse may please be accepted for credit to my account No. .... maintained with you. I hereby authorise you to debit the said account with the amount due from me to you and other banks and to the Tobacco Board/Government in respect of loans as per my T.G.P.B. No. ....

Yours faithfully,

Date:

Seller's signature/thumb impression

Explanatory Notes/terms and conditions of purchase/sale of tobacco and payment/receipt thereof under the Tobacco Leaf Purchase Voucher (T.L. P. V.) and Tobacco Grower's Pass Book (T.G. P.B.) system.

Item I : Purchaser:

For explanation, please refer to Form V and Form VI under the Tobacco Board Amendment Rules, 1976.

Item 1 to 8:

For the sake of convenience, items 1 to 8 may be duly filled up by rubber stamping. The purchaser may get a stamp prepared for the purpose. The stamp shall be to the exact size of the space provided and the lettering should be appropriate to confine to the space against each item. The item No. should be prefixed on the stamp lest there may be any mismatching in stamping. Care should be taken to stamp properly in order that each T.L.P.V. so stamped is clearly readable.

Item 16:

The name of the bank which has given crop/term loans to the grower-seller as per Tobacco Grower's Pass Book (T.G.P.B.) should be indicated. If no loans are taken, the name of the bank where the account is maintained/to be maintained should be indicated.

Items 25 and 32:

Totals should tally.

Items 31 to 39:

Payments for purchase of tobacco/receipts for sale of tobacco can be made by cheque and/or cash. All payments for purchases of tobacco/receipts for sale of tobacco shall be if made by cheques drawn by the purchaser on his bank in favour of the seller's bank, A/c Seller. If payment against a voucher is preferred to be made in instalments the first payment should be down payment representing not less than 50 per cent of the purchase value of the tobacco. The balance should be paid within 120 days in not more than two instalments. If the entire sale consideration is paid by cheque, the cheque(s) should be simultaneously given along with TLPV in full settlement, the cheque for down payment bearing a date not later than the tenth day of purchase, the remaining cheque(s) post dated to not later than the one hundred and twentieth day of purchase.



## Item 33.

Where applicable

## Item 34

Only the amount due from seller to the purchaser for loans given by the said purchaser in cash or kind for purchase of (i) seedlings, (ii) fertilisers, (iii) pesticides/insecticides and (iv) fuel such as coal as per T.G.P.B. is to be deducted from final payment. No entry for deduction should be made under this item, unless corresponding entries are made under columns 10 and 11 and duly signed under item 13 of T.G.P.B. It shall be noted that such deduction has to be made in final payment only.

## Item 36.

Interest payable should be added in the final payment after calculating the same for amounts and periods deferred. The rate at which interest is chargeable will be 14% for the 1978-79 season. For the down payment made within 10 days from the date of purchase no interest need be charged.

## General.

1. The first copy of the voucher printed in green covers items 1 to 30 of the voucher and is meant to be furnished to the grower seller by the purchaser on the day of purchase without fail. The entries against items 1 to 30 filled in the first copy should be automatically reflected in the other 3 copies through the use of carbon. The second copy printed in black is meant for the purchaser. The third copy printed in pink is to be issued to the seller along with cash or cheque(s) for payment of the purchase value as per items 31 to 39. The seller should present the cheque along with the said third copy of the voucher to the banker. The fourth copy printed in blue is to be sent promptly to the Tobacco Board through the purchaser's bank if cheque payment is made and directly if cash payment is made. The first copy of the voucher covering items 1 to 30 has to be given at the time of purchase itself to the seller in token of the weight, grade and rate of tobaccos sold by him to the purchaser. When the cheques or cash payment are ready within 10 days of purchase, the seller should produce the first copy to the purchaser and collect the payment along with the third copy of the voucher which would have been filled in by the purchaser by then. The seller and purchaser should ensure that entries against items 1 to 30 tally in all the 4 copies of the voucher.
2. Cheque(s) should be issued simultaneously with the T. L. P. V. in full settlement and specifically drawn post-dated on purchaser's bank in favour of the seller's bank (i. e. the Bank where the seller has taken loans vide T. G. P. B.) A/c. Seller.
3. The seller should present the T. L. P. V. along with the cheque(s) and T. G. P. B. to his banker for realisation. T. L. P. V. and cheques unaccompanied by the T. G. P. B. will cause delays/non-realisation for which the seller would be responsible. He should keep his T. G. P. B. upto date and should not lose the same.
4. Loans/advances repayable to the banks, the Tobacco Board/Government by the seller should be deducted by the crediting bank out of the sale proceeds credited according to schedule and remitted to the appropriate agency.
5. For loss of T. L. P. V. and/or the T. G. P. B. and consequences thereof, the seller is solely responsible and not the Tobacco Board or the Bank. He should therefore preserve these very carefully.
6. Each purchaser/seller should possess/ be issued a copy of the said brochure for his record, reference and compliance. Unawareness/non-possession of the same should be no explanation for non-compliance.

FORM-II

## TOBACCO BOARD

## BROCHURE

## ON

TOBACCO LEAF PURCHASE VOUCHER  
(TLPV)

## AND

TOBACCO GROWER'S PASS BOOK  
(TGPB)  
SYSTEM

APPLICABLE TO ANDHRA PRADESH FCV CROP  
(1978 Crop-marketed in 1979)

## FORM II.

## PRINTED &amp; SUPPLIED BY THE TOBACCO BOARD

**Brochure giving further details under the TLPV and TGPB system. (vide item 42 of TLPV)**

1. Every purchaser of flue cured virginia tobacco from growers should issue the Tobacco Leaf Purchase Voucher (hereinafter referred to as TLPV) as prescribed by the Tobacco Board whenever he purchases tobacco from a grower seller, with necessary entries in the Tobacco Grower's Pass Book (hereinafter referred to as TGPB). A specimen each of the TLPV and TGPB is enclosed (form-I and form-III). Every grower seller should insist on the issuance of the TLPV whenever he sells tobacco and every purchaser should insist on the presentation of the TGPB when he issues the TLPV. No voucher/form, except the TLPV as issued and supplied by the Tobacco Board, shall be used for purchase of tobacco. No addition to/deletion from/modification of the TLPV shall be made by any one, except the Tobacco Board.

2. The purchaser of tobacco should obtain each season adequate number of blank TLPV forms for his operations from the Tobacco Board by applying for the same on the prescribed form and after fulfilling the formalities thereof. His application for forms shall be received in the Tobacco Board office atleast one month in advance to enable the latter to supply the same. A specimen of the application form, which includes the formalities to be completed is enclosed (form-IV).

3. The TLPV will be in quadruplicate with the original bearing items 1 to 30 and the other 3 copies bearing items 1 to 42. The first copy printed in green is meant for the grower-seller. The entries against items 1 to 30 filled in the first copy should automatically be reflected in the other 3 copies through the use of carbon. The duplicate printed in black is meant for the purchaser. The triplicate printed in pink is meant for the grower-seller. It should be issued to the grower-seller by the purchaser along with cash or cheque(s) for payment to the purchase value as per items 31 to 39. If paid by cheque, the grower-seller should present the triplicate along with the cheque(s) to his banker. The quadruplicate printed in blue is meant for the Tobacco Board. The purchaser should send it promptly to the Tobacco Board through his bank if payments are made by cheques and directly if payment is made by cash. The first copy of the voucher covering items 1 to 30 has to be given at the time of purchase itself to the seller in token of the weight, grade and rate of tobacco sold by him to the purchaser. When the cheques or cash payment are ready within 10 days of purchase, the seller should produce the first copy to the purchaser and collect the payment along with the third copy of the voucher which would have been filled in by the purchaser by then. The seller and purchaser should ensure that entries against items 1 to 30 tally in all the 4 copies of the voucher. A full account of the use of the forms to the satisfaction of the Tobacco Board should be rendered by the purchaser before his indent for fresh forms is honoured. If necessary the Central Excise and other Government organisations also can refer to the quadruplicate available with the Tobacco Board. In case of loss of TGPB and/or TLPV third copy by the seller, the fourth copy will come handy to reconstruct the record to the extent possible.

4. The purchaser should note that the carbon copies should be fully legible. The original shall be filled with ball point pen. All items in the TLPV should be duly filled in and no blanks should be left against any item. No over-writings should be there. Any corrections should be authenticated under full signature.

5. Each purchaser shall render as per proforma in the application for indenting the required number of forms for ensuing season, a full account of the use of the voucher forms for the season ended before he could obtain fresh blank voucher forms for his operations in the ensuing season. All vouchers wrongly issued or spoiled or torn or mutilated or soiled shall be cancelled, preserved and returned to the Tobacco Board, along with the unutilised blank voucher forms for the season ended. It should be noted by each purchaser that non-fulfilment of these formalities to the satisfaction of the Tobacco Board will result in refusal to issue fresh forms.

6. Though in paragraph 3 above, it is stated that the fourth copy will come handy to reconstruct record to the extent possible when TGPB and/or TLPV triplicate form are lost, it should be clearly noted by the seller that for any accidental or wilful loss of his copy of the TLPV or TGPB and the consequences thereof, he will be responsible and that the Tobacco Board or the banks will not be responsible. It is, therefore, incumbent on his part to assiduously protect and preserve the TLPV copy till such time he presents it to his banker. He should preserve the TGPB also as it has to last for more than one sale or one season and as his produce will be purchased and his loans will be given against the production of the TGPB. It should also be noted by the seller that any reconstruction of record to the extent possible will be completely at the discretion of the Tobacco Board and will be subject to the rules and regulations the Board will be imposing in this connection.

7. In order to realise his sale proceeds of tobacco, if payments are made by cheque, it is necessary for a grower seller of tobacco to open an account with a bank, whether he has borrowed from a bank or not. Sale proceeds realised through the bank are drawable or transferable to another account of seller to the extent of the net amount available to him after debiting his account for repayment of loans due from him to the bank or to any other bank or to the Government the Tobacco Board on whose behalf the debit can be made. It is, therefore, necessary for the seller to ensure that the relevant entries in his TGPB are in order to be eligible for crop and other loans next year and maintain his registration number with the Tobacco Board.

8. It would be ideal to pay promptly in full the purchase value of tobacco to the grower seller. If this is not possible at least not less than 50 per cent of the purchase value shall be paid as down payment. The balance shall be paid within a period of not more than 120 days in all and in not more than two instalments with interest at the rate to be specified by the Tobacco Board for each season.

9. Payments against TLPV may either be in cash or cheque.

10. Payments against TLPV can be made by cheque by the purchaser drawn on his bank in favour of the grower seller's bank, a/c sellers. For this purpose, he should see the TGPB and issue the cheque in favour of that bank from which the grower has taken crop/term etc., loan.

11. Where the purchase value is paid in cheque and in instalments not more than three cheques can be issued. The first cheque is for down payment, if necessary it may be post-dated for not later than the tenth day from the date of purchase. The other cheques should be post-dated to not later than the 120th day of purchase and shall be in full settlement of the purchase value against the TLPV in question.

12. Where the purchase value is paid in cash and in instalments, the down payment should be not less than 50 per cent of the sale consideration and be paid not later than the 10th day from the date of purchase. The remainder after the down payment should be not later than the 120th day from the date of purchase and should be in full settlement of the purchase value against the TLPV in question.

13. All the cheques or payments by cash as above should together equal the net amount payable to the grower seller after deducting any dues from the seller to the purchaser because of loan/advance given in kind or cash for (i) seedlings (ii) fertilisers, (iii) pesticides, insecticides and (iv) fuel, i.e. coal, etc., by the latter. Such dues are deductible only in the final settlement. No other dues to the purchaser if any shall be deducted. All the cheques should be issued simultaneously in the manner stated above, specifically post-dated and should accompany the TLPV in question at the time of purchase of tobacco.

14. The first cheque or down payment in cash shall be for not less than 50 per cent of the purchase value as mentioned in paragraph 8 above. Payment of the remainder should be in full settlement minus the dues from the seller to the purchaser but plus the amount of interest due to the seller from the date of purchase of tobacco for period for amount deferred for payment. The interest rate shall be specified by the Tobacco Board for each season. For the down payment

made within ten days from the date of purchase, no interest need be charged.

15. In order to make payment by cheque of at least the 50 per cent down payment it is necessary for a purchaser of tobacco to open a tobacco special account (distinct from any of his usual current/savings etc., account) with a bank whether he has borrowed from a bank or not and to ensure sufficient funds in that account to make such payments. Likewise, he has to ensure sufficient funds in his other accounts to honour on due dates the other cheques issued for his purchases. He should make arrangements to issue the cheques along with TLPVs by his authorised agents, whose specimen signatures are to be sent in advance to banks concerned.

16. Where the tobacco purchaser is borrowing against hypothecation pledge of stocks from a bank, the latter shall credit the loan amount to the purchaser's cash credit/packing credit/shipping loan, etc., account. The funds will have to be transferred from any of these accounts to the Tobacco Special Account to honour the 50 per cent down payment cheques as and when presented.

17. The banker shall take a letter from the purchaser authorising the former to transfer funds from any of the latter's account to tobacco special account whenever the funds therein fall short of the payments to be made for 50 per cent down payment cheques issued by the purchaser against his TLPVs and act upon it without further reference to the purchaser. The purchaser will have to enter into a suitable arrangement with his banker for this purpose. Likewise he

should give a similar letter of authority to his banker to debit any of his account to meet the payments in respect of the other cheques.

18. It should be noted by the purchaser (and also by the seller) that the bank will pay against cheques against TLPV if only and to the extent funds are available in the purchaser's accounts with the bank. For any bouncing of the cheques and consequences thereof the bank or the Tobacco Board will not be responsible. The purchaser shall be solely responsible for any bouncing of his cheques for want of funds on due dates and the consequences thereof. Any bouncing will mean choking of his line of credit by the bank, intimation to the Tobacco Board who in turn may suspend/cancel his registration and prevent him from further operations.

19. It should be clearly noted by the purchaser that while extending credit or enhancing limit to him, the bank will follow the usual banking norms and will lend to the extent permissible and to the extent possible. Minimum 50 per cent down payment stipulation, etc., under the TLPV and TGPB system will not entitle any purchaser to any extra credit from the banks. What is stipulated under the system is that credit extended by the banks to the purchaser against hypothecation/pledge etc., of stocks of tobacco should reach the grower seller at the earliest and that trading on unpaid stocks should be curbed and that the stake of the purchaser should increase in the business.

20. Any request for extra credit for extra purchases will be considered by banks on merits under usual banking norms.

FORM III

Printed & Supplied by the Tobacco Board

Serial No. \_\_\_\_\_

## TOBACCO BOARD

TOBACCO GROWER'S PASS BOOK  
(TGPB)

[To be filled in by the tobacco grower as given in Form I under Rule 33(3) and Form II under Rules 35(5),  
except column 9 of item 6]

1. Name and address of grower \_\_\_\_\_

2. Father's or husband's name \_\_\_\_\_

3. Tobacco Board Grower's Registration  
No. (T.B.G.R. No.) \_\_\_\_\_

4. Name(s) of Bank(s) and address(es) from which crop/term loans are  
taken \_\_\_\_\_

5. Name(s) of any other bank(s) with which account is held \_\_\_\_\_

Place :

Signature/thumb impression of grower

Date :

6. Particulars of area in hectares and registration

| Year | Name of village,<br>Taluk and District | Survey No. | Extent of land |        | Total as in<br>Form II | T.G.B.R. No. valid<br>dates |    | Certified that the<br>particulars furnished<br>in cols. 1 to 8 are<br>correct as per<br>Forms I and II.<br>Signature and Date<br>of Tobacco Board<br>Official |
|------|--|------------|----------------|--------|------------------------|-----------------------------|----|---|
|      |  |            | Owned          | Leased |                        | From                        | To |   |
| 1    | 2                                      | 3          | 4              | 5      | 6                      | 7                           | 8  | 9   |

7. Central Excise Licence No. C.E.L. No. \_\_\_\_\_

Certified

Signature of  
C. E. Official

## 8. Central Excise Survey Book Serial No.

Year

1977-78

1978-79


1979-80

1980-81

1981-82

1982-83

Number

Signature of C.E. Official  
and Date*Space for grower's photograph and any other particulars :*

## 9. Actual area cultivated and crop raised

| Area in Hectares | Production in Kgs. | Signature of C.E.<br>Official |
|------------------|--------------------|-------------------------------|
|                  |                    |                               |
|                  |                    |                               |
|                  |                    |                               |
|                  |                    |                               |
|                  |                    |                               |
|                  |                    |                               |
|                  |                    |                               |
|                  |                    |                               |
|                  |                    |                               |

*(To be filled in by the purchaser)*

1977-78

1978-79

1979-80

1980-81

1981-82

1982-83

10. Levy, if any, remitted to the  
Government

Amount remitted in Rs.

Signature of purchaser or his  
representative and date

(To be filled in by banks)

## 11. Crop loans from banks

(In Rupees)

| Date | Name of Bank | Amount advanced | Initials of advancing bank official and date | Amount collected and remitted | Balance amount due | Initials of remitting bank official and date |
|------|--------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------------|--|
| 1    | 2            | 3               | 4  | 5                             | 6                  | 7  |

(To be filled in by banks)

## 12. Term loans for barns etc., from banks.

(In Rupees)

| Date | Name of Bank | Amount advanced | Amount instalment due | Initials of advancing bank official and date | Instalment collected and remitted | Present outstanding amount | Initials of remitting bank official and date |
|------|--------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|
| 1    | 2            | 3               | 4                     | 5  | 6                                 | 7                          | 8  |

N.B.—The collecting bank should remit the amount to the bank which has given the loan.

(To be filled in by the purchaser)

## 13. Loans for inputs by purchaser to the grower.

(In Rupees)

| Year | Name of purchaser | Purpose for which given (specify)* | If in kind |   | If in Cash Amount | Total amount of loan given (5+6) | Signature of purchaser and date @ | Signature of grower | Amount repaid | Present outstanding amount | Signature of purchaser @ and date |
|------|-------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1    | 2                 | 3                                  | 4          | 5 | 6                 | 7                                | 8                                 | 9                   | 10            | 11                         | 12                                |

N.B.—\*Specify whether for (i) seedlings, (ii) fertiliser, -by type, (iii) pesticides/insecticides -by type and (iv) fuel (coal etc.—specify)  
 Advance/Loan given for any other purpose should not be entered here.  
 @ or, by his authorised representative.

(To be filled in by the Tobacco Board/Government Department concerned)

## 14. Tobacco Board/Government loans/advances.

(In Rupees)

| Year | Name of agency | Purpose for which given (Specify) | If in kind |       | If in cash Amount | Total amount of loan given (5+6) | Amount Instalment due | Initials of Govt./ Tobacco Board Official | Instalment collected and re-mitted | Present outstanding amount | Signature with date of Govt./ Tobacco Board official |
|------|----------------|-----------------------------------|------------|-------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------------|--|
|      |                |                                   | Quantity   | Value |                   |                                  |                       |   |                                    |                            |  |
| 1    | 2              | 3                                 | 4          | 5     | 6                 | 7                                | 8                     | 9   | 10                                 | 11                         | 12   |

FORM IV

## APPLICATION FOR TOBACCO LEAF PURCHASE VOUCHER FORMS

From

Name of Company :

Place of Head Office :

Tobacco Board Reg. No. :

Valid from :..... to.....

To

The Chairman,

Tobacco Board,

Guntur.

Dear Sir,

1. I give below the account of the tobacco leaf purchase voucher forms which I have obtained from you for my operations during the season.....

| From<br>Serial<br>No. | To<br>Serial<br>No. | Total No.<br>of vouchers |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|
|-----------------------|---------------------|--------------------------|

(i) No. of voucher forms obtained (iii+iv)

(ii) No. of voucher forms spoiled (specify Serial Nos on page 2)

(iii) No. of voucher forms utilised

(iv) No. of voucher forms returned (spoiled &amp; unutilised forms)

2. Returned herewith are the spoiled and unutilised voucher forms as in (ii) and (iv) above.

3. I hereby state that I have cleared all my dues/outstandings in respect of my tobacco purchases from growers/sellers for the season ended (specify)..... Enclosed please find in this regard the certificate from my bankers that all the dues/outstandings for my purchases of tobacco are cleared. Given below is the account of my purchases month-wise.

| Month | Purchase of Tobacco from |         |             |         | Amount paid to |         | Outstanding payment at end of month to |         |
|-------|--------------------------|---------|-------------|---------|----------------|---------|--|---------|
|       | Quantity (Kgs.)          |         | Value (Rs.) |         | Rs.            |         |  |         |
|       | growers                  | dealers | growers     | dealers | growers        | dealers | growers                                | dealers |
| 1     | 2                        | 3       | 4           | 5       | 6              | 7       | 8                                      | 9       |

4. I enclose the bank certificate vide Tobacco Board Circular No. 4/77 dated 17-3-77.

5. Please supply

(in words  
only) TLPV forms for the season  
Yours faithfully,

Place :

Signature of person  
authorised to sign for and  
on behalf of the purchaser

Date :

6. Supplied the following TLPV blank forms from Serial No. \_\_\_\_\_ to Serial No. \_\_\_\_\_, (total number of forms being \_\_\_\_\_ (in words \_\_\_\_\_ only) to \_\_\_\_\_  
for the tobacco season.

Place :

Date :

Tobacco Board Official's  
Signature

7. Received the following TLPV blank forms from Serial No. \_\_\_\_\_ to Serial No. \_\_\_\_\_, total number of forms being \_\_\_\_\_ (in words \_\_\_\_\_ only) from the Tobacco Board for the tobacco season.

8. I have read the explanatory notes to, terms and conditions of purchase/sale of tobacco and payments/receipts thereof as on reverse of the TLPV and as in the Brochure issued for the purpose by the Tobacco Board and agree to abide by the same. I also agree to make the necessary entries in the Tobacco Grower's Pass Book (TGPB) printed and supplied by the Tobacco Board to the tobacco growers and honour its features.

Place :

Purchaser's Signature.

Date :

Ref : Item I(ii)

Serial Numbers of spoiled forms returned :

FORM V

### FORM SHOWING THE ACCOUNT OF THE TOBACCO LEAF PURCHASE VOUCHERS

Name of Company (purchaser) & address

TBR No.

| Date | No. of vouchers received from to |        | Total No. of vouchers | Cost paid and receipt No. | No. of vouchers used from to |        | Total No. of vouchers used | No. of vouchers spoiled from to |        | Total No. of vouchers spoiled | Total (8+11) | Balance (4—12) |
|------|----------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|--------------|----------------|
|      | S. No.                           | S. No. |                       |                           | S. No.                       | S. No. |                            | S. No.                          | S. No. |                               |              |                |
| 1    | 2                                | 3      | 4                     | 5                         | 6                            | 7      | 8                          | 9                               | 10     | 11                            | 12           | 13             |